

**राजस्थान विधान सभा**

**चतुर्थ सत्र**

**कार्य-सूची**

**शुक्रवार, दिनांक 12 मार्च, 2010**

**बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे**

**1. प्रश्न**

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

**2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि**

**प्रतिवेदन**

श्री शांती कुमार धारीवाल, गृह मंत्री निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे : -

- I भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) ; एवं
- II भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन (वाणिज्यिक).

**3. याचिकाओं का उपस्थापन**

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगी :-

- I जोधपुर के फिदुसर चौपड़ एवं अन्य खान क्षेत्रों में एप्रोच सड़कों की चौड़ाई के पुनर्निर्धारण बाबत ; एवं
- II सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के झंवर रोड़ पर स्थित श्री राम नगर एवं हरि नगर में मूलभूत सुविधाओं-पेयजल, सीवरेज, सी.सी. सड़क, रोड़ लाईट की स्थापना बाबत ।

**4. अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2009-2010 का उपस्थापन एवं मतदान**

श्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री वर्ष 2009-2010 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन करेंगे । अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2009-2010 मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत की जाएंगी ।

## 5. विधायी कार्य

### राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2010 का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण

- (I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
- राजस्थान विनियोग(संख्या-1)  
विधेयक, 2010  
(2010 का विधेयक संख्या-1)
- "वित्तीय वर्ष 2009-2010 की सेवाओं के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिये विधेयक ।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।
- (III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।
- (IV) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

## 6. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2010-2011

### प्रथम अवस्था

### सामान्य वाद-विवाद

राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2010-2011 पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद होगा ।

एच.आर. कुडी  
सचिव

विधान सभा भवन,  
जयपुर  
दिनांक 11 मार्च, 2010